



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 1
PART III—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

पं० 1]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 10, 1984/पौष 20, 1905

No. 1]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 10, 1984/PAUSA 20, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग सफलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अजंते रेंज 1, अहमदाबाद

[आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269 ब (1) के अधीन सूचना]

अहमदाबाद, 22 दिसम्बर, 1983

निर्देश नं० पी०आर० नं० 2792 वर्जन रेंज-23-I/83-84:-

अतः मुझे आर०आर० शाह आयकर अधिनियम, 1961
(1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधि-
नियम कहा गया है) की धारा 269 ब के अधिनियम
प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्व.वर
सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000 रु० से
अधिक है और जिसकी सं० सर्वे नं० 157-157-1, 2,
175-1 और 2 है। तथा जा बोनेज, काना, तालुका-
सानंद, जिला-अहमदाबाद में स्थित है (और इसके उदाहरण
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधि-
कारा के कार्यालय, सानंद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,
1908 (1908 का 16) के अधीन 22-4-83 को

1292 GI/83

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल में, एक दृश्यमान प्रतिफल
का पंद्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकी) और
अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय
पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से यथा अन्तरण
लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बावत आयकर
अधिनियम 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने
के अन्तरण के वास्तविक में कमो करने या उतमे बचने में
सुविधा के लिए और या अन्य।

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का
11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या
धनकर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोग-
नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया
जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनु-
सरण में, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ब की उदाहरण

(1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् --

(1) मेसर्स स्लेमके म्वीनगीयर्स (अन्तरक)

आरपेट लिमिटेड

8-डो, फीरडोज फलेट्स,

खानपुर, अहमदाबाद

(1) रामजीभाई हीरजीभाई (अन्तरिती)

(2) शान्तीलाल रामजीभाई

(3) नरेन्द्र रामजीभाई

(4) तुलसीभाई रामजीभाई

(5) कान्ताबेन रामजीभाई

(6) दीपा शान्तीलाल

(7) अनसुया दीलीपभाई

(8) दीलीपभाई देवशीभाई

(6) हंसराज धनजीभाई

(10) एम भट्टाचार्या

उषाग्राम, जी.टी. रोड, आसनसोल, (वेस्ट बंगाल)

(3) श्री/श्रीमती/कुमारी----- (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) श्री/श्रीमती/कुमारी----- (वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप,

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20क यथ परिभाषित है वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जिसका क्षेत्रफल 52514 वर्ग यार्ड है जो गांव-फलाना, तालुका-सानंद, जिला-अहमदाबाद में स्थित है तथा मय रजिस्टार सानंद रजिस्ट्रीकर्ता विषयित नं० 865/22 4-83 है।

आर० अर० शाह,

सहाय प्र धि शाही

महायक आयकर आयुक्त निरीक्षण,

अहमदाबाद

अहमदाबाद

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

Ahmedabad Office of the Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax Acquisition Range 1,

NOTICE UNDER SECTION 269 D (1) OF THE INCOME TAX ACT 1961 (43 of 1961)

Ahmedabad, the 22 December, 1983

Ref. No. P. R. No. 2792 Acq.23/1/83-84, Whereas, I, R. R. SHAH being the competent authority under Section 269 B, of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said 'Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing No. S. No. 157-1, 2, 175-1&2 situated at village : Kalana. Tal : Sanand Dist : A'bad, (and more fully described in the Schedule annexed here to has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Sanand on 22-4-83 or an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said Instrument of transfer with the Object of :—

- (a) facilitation the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer, and/or.
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income Tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (i) of Section 269 D of the said Act to the following Persons, namely :—

(Transferor)

M/s Selmak Switchgears Pvt. Ltd.
8-D, Fir dose Flats, Khanpur,
Ahmedabad.

(Transferor (s))

- (1) Shri Ramjiibhai Hirjiibhai
- (2) Shri Shantilal Ramjiibhai
- (3) Narendra Ramjiibhai
- (4) Tulshibhai Ramjiibhai
- (5) Kantaben Ramjiibhai
- (6) Dipa Shantilal
- (7) Anusua Dilipbhai
- (8) Dilipbhai Devshibhai

(9) Hansraj Dhanjibhai

(10) S. Bhattacharya

All @ Usha gram, G. T. Road, Asansol (West Bengal)

(Person in occupation of the property)

(person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other persons, interested in the said immovable property within 45 days from the date of publication of this notice in the official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in this Chapter.

Land adm. 52514 sq. yd.— situated at village

Kalana, Tal : Sanand Dist : A'bad duly regd.

by S. R. Sanand vide sale deed R. No. 865/22-4-83.

R. R. SHAH, COMPETENT AUTHORITY

(Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range AHMEDABAD)

Ahmedabad.

Dt. 22-12-83

Seal

